



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 1, 2013/माघ 12, 1934

No. 53]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 1, 2013/MAGHA 12, 1934

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2013

सा.का.नि. 60(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

1. (1) इस स्कीम को कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2013 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगी।

2. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में,

(क) पैराग्राफ 51 में, निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“51. ब्याज खाता-प्राप्त सभी ब्याज, किराया तथा अन्य आय, प्रशासनिक खाते के लेन-देनों को शामिल न करते हुए बिक्री अथवा निवेश से प्राप्त नेट लाभ अथवा हानि, यदि कोई हो उसे “ब्याज खाते” में क्रेडिट अथवा डेबिट, जैसा भी मामला हो किया जाएगा, और प्रतिभूतियों की खरीद तथा बिक्री तथा अन्य निवेशों की ब्रोकेज एवं कमीशन को खरीद एवं बिक्री मूल्य में शामिल किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, तथा अलग से “ब्याज खाते” में चार्ज नहीं किए जाएंगे”;

(ख) पैराग्राफ 60 में,—

(i) उप-पैराग्राफ (3) में शब्द “ब्याज सस्पेंस खाते” के स्थान पर शब्द “ब्याज खाता” प्रतिस्थापित किए जाएंगे; और

(ii) उप-पैराग्राफ (4) में शब्द “ब्याज सस्पेंस खाते” के स्थान पर शब्द “ब्याज खाता” प्रतिस्थापित किए जाएंगे; और

(ग) पैराग्राफ 68ख में, उप-पैराग्राफ (10) में शब्द “ब्याज सस्पेंस खाते” के स्थान पर शब्द “ब्याज खाता” प्रतिस्थापित किए जाएंगे; और

(घ) प्रारूप 11 में, पैराग्राफ 55 में संदर्भित बैलेंस शीट से संबंधित, तालिका में, क्रम संख्या 5 के सामने कॉलम (3) में, प्रविष्टि “ब्याज सस्पेंस खाते” के स्थान पर प्रविष्टि “ब्याज खाता” प्रतिस्थापित की जाएगी।

[फा. सं. एस. 65025/1/2011-एसएस-II]

ए. सी. पाण्डेय, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दिनांक 2 सितम्बर, 1952 की अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1509 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पिछली बार सं. सा.का.नि. 744(अ), दिनांक 5 अक्टूबर, 2012 द्वारा इसे संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2013

G.S.R. 60(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 read with sub-section (1) of Section 7 of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely:—

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (Amendment) Scheme, 2013.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952,—

(a) for paragraph 51, the following paragraph shall be substituted, namely :—

“51. **Interest Account.**—All interest, rent and other income realized, and net profits or losses, if any, from the sale or investments not including therein the transactions of the Administration Account, shall be credited or debited, as the case may be, to an account called “Interest Account”, and the brokerage and commission of the purchase and sale of securities and other investments, shall be included in the purchase or sale price, as the case may be, and not separately charged to the “Interest Account”;

(b) in paragraph 60,—

(i) in sub-paragraph (3), for the words “Interest Suspense Account”, the words “Interest Account” shall be substituted; and

(ii) in sub-paragraph (4), for the words “Interest Suspense Account”, the words “Interest Account” shall be substituted;

(c) in paragraph 68B, in sub-paragraph (10), for the words “Interest Suspense Account”, the words “Interest Account” shall be substituted; and

(d) In Form 11, relating to balance sheet referred to in paragraph 55, in the Table, against serial number 5, in column (3), for the entry “Interest Suspense Account”, the entry “Interest Account” shall be substituted.

[F.No. S-65025/1/2011/SS-II]

A. C. PANDEY, Jt. Secy.

Footnote : The Employees' Provident Funds Scheme, 1952 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number S.R.O. 1509, dated the 2nd September, 1952 and lastly amended vide notification number G.S.R. 744(E), dated the 5th October, 2012.